



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2011/वैशाख 6, 1933

No. 689]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2011/VAISAKHA 6, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2011

का.आ. 806(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1285(अ), तारीख 1 जून, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0/000 कि.मी. से 81/600 कि.मी. (तिरुथानी-चेन्नई सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 30 जून, 2010 को "दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस" और "दिनामणि" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और नौ आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 205 के 0/000 कि. मी से 81/800 कि. मी तक (तिरुथानी - चेन्नई सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण और उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	थोजोरु	68/12ए2	निजी	शुष्क	2000	377. दामोदरन पुत्र अरुमुगम 3586 शाहुल हमीद पुत्र जैलाबुदीन
				68/13ए2	निजी	शुष्क	1632	84. कृष्णन पुत्र गोविन्दासामी 527 कृष्णन शान्तार्लिंगम, गोविन्दासामी के पुत्र नायागाम पत्नी गोविन्दासामी
				68/13बी2	निजी	शुष्क	1692	4067 पलानि पुत्र दिल्ली रेडडीयार
				69/2	निजी	शुष्क	2653	3426 धाकशीनामूर्थि पुत्र दिल्ली रेडडीयार 4067 पलानि पुत्र दिल्ली रेडडीयार
				70/1बी2	निजी	शुष्क	1045	3426 धाकशीनामूर्थि पुत्र दिल्ली रेडडीयार 58. गुनाशेखर पुत्र वेनुगोपाल मुदलियार
				71/2बी2	निजी	शुष्क	1521	2806 टी भवानी पत्नी टी पलानि
				74/2	निजी	शुष्क	1971	58. गुनाशेखर पुत्र वेनुगोपाल मुदलियार
				75/2	निजी	नम	3008	191 गीरिजा पत्नी गुनाशेखरन
				82/20	निजी	शुष्क	800	598 बालाकृष्णन रेडडी उगारावेल रेडडी श्रीनिवास रेडडी, गोविन्दाराजी रेडडी के पुत्र
				82/1ए4	निजी	शुष्क	165	2916 मनीबोसानाम पत्नी गोपाल रेडडी
				82/1ए5बी	निजी	शुष्क	737	2643 पल्लवी पुत्र मनी अलाई
				82/11बी	निजी	शुष्क	12	1686 नीलकान्ता राव पुत्र सुन्द्रा राव
				82/12	निजी	शुष्क	400	1687 कृष्णासामी पुत्र मेरीयाप्पान
				82/19	निजी	शुष्क	100	528 बालाकृष्णन रेडडी उगारावेल रेडडी श्रीनिवास रेडडी, गोविन्दाराजी रेडडी के पुत्र
				83/1ए1ए2	निजी	शुष्क	288	387 रामासामी नायडु पुत्र पेरुमल नायडु
				83/1ए1बी2	निजी	शुष्क	185	2536 जे जयसोदा पत्नी आर आई सुरेन्द्र
				83/1ए1सी2	निजी	शुष्क	107	2632 टी देवी पत्नी टी डेविड

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83/1बी2	निजी	शुष्क	200	3861 ओम प्रकाश पुत्र सखिया नारायणन
				83/1बी3	निजी	शुष्क	150	172 श्रीनिवास रेडडी पुत्र गोविन्दाराजा रेडडी
				83/1बी4	निजी	शुष्क	150	172 श्रीनिवास रेडडी पुत्र गोविन्दाराजा रेडडी
				83/2ए1सी	निजी	शुष्क	300	494 रामासामी नायडु पुत्र पेरुमल नायडु राजाम्माल पत्नी केशवालु नायडु
				83/2बी2	निजी	शुष्क	20	387 रामासामी नायडु पुत्र पेरुमल नायडु
				83/2सी2	निजी	शुष्क	6	47 इलुमलाई पुत्र केशवाल नायडु
				83/4बी	निजी	शुष्क	30	2824 भारता पत्नी उमापति
				84/2	निजी	शुष्क	3520	1403 श्रीनिवास रेडडी, बालाकृष्णा रेडडी गोविन्दाराजी रेडडी
				84/1ए10	निजी	शुष्क	200	1419. कान्दान पुत्र रामासामी ईयानगार
				84/1ए29	निजी	शुष्क	200	2122 जे सेलवा सुन्दरी पत्नी जीवानानदाम
				84/1ए30बी	निजी	नम	110	2123 एम गोपाल पिल्लै पुत्र मनीका पिल्लै
				84/1ए33बी	निजी	नम	55	2114 डी अरुण सयार पुत्र डी ईस्ताक
				84/1ए34	निजी	नम	200	2115 पी मयनावाथाई पत्नी पोन्नुरंगाम
				88/3बी	निजी	शुष्क	3273	495 लोगानाथन चेट्टी 2. समापति चेट्टी, पचाईयाप्पा चेट्टी के पुत्र
				90/2	निजी	नम	2809	2704 एन रागु गर्डियन आर नरेन्द्रा प्रसाद 2. नवीन्द्रा प्रदीश
				91/2	निजी	नम	275	2704 एन रागु गर्डियन आर नरेन्द्रा प्रसाद 2. नवीन्द्रा प्रदीश
				92/2	निजी	नम	1945	309 माम्मुषा पत्नी पलायम
				93/2	निजी	नम	1330	253 पट्टाम्माल पत्नी जगन्नाथन
				94/2	निजी	नम	1123	253 पट्टाम्माल पत्नी जगन्नाथन
				95/1बी	निजी	नम	1400	309 माम्मुषा पत्नी पलायम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				95/2बी	निजी	नम	496	626 गणपति पुत्र धान्योनी मुदलियार 2. गणपति 3. चोकरालिगा मुदलियार, सुन्नमणि मुदलियार के पुत्र 4. मुरुगेश मुदलियार 5. शानमुगम मुदलियार, विन्नाईया मुदलियार के पुत्र
				95/3	निजी	नम	503	253. पट्टाम्माल पत्नी जगननाथन
				96/1बी	निजी	नम	811	253. पट्टाम्माल पत्नी जगननाथन
				96/2बी2	निजी	नम	834	253. पट्टाम्माल पत्नी जगननाथन
				96/3बी2	निजी	शुष्क	1683	253. पट्टाम्माल पत्नी जगननाथन
				97/2	निजी	नम	900	253. पट्टाम्माल पत्नी जगननाथन
				101/2बी	निजी	नम	275	309 माम्मुघा पत्नी पलायम
				102/2बी	निजी	नम	176	435. थिरुवाल्लुर वीरा रामबासामी कोईल
				175/1सी2	निजी	नम	170	337. मुनुसामी पुत्र पोन्नान
				176/1	निजी	नम	1850	92. पाप्पाम्माल पत्नी सेन्वी
				176/2ए1बी	निजी	नम	310	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्दान
				176/2ए2बी	निजी	नम	28	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्दान
				177/1बी2	निजी	नम	1870	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्दान
				177/2ए3	निजी	नम	2500	529. ईरराम्पान 2. अरुपुथाम 3. बालन 4. सरथा, पोन्नुसामी के पुत्र और पुत्रीयाँ
				177/2बी	निजी	नम	150	776 एस ईलांगोवन पुत्र ई समपत
				177/2सी	निजी	नम	150	777 के शिवराज पुत्र वी कुप्पुसामी पिल्लै
				177/2एफ	निजी	नम	150	1211 वदीवेल पुत्र मुथु मुदलियार
				177/2जी	निजी	नम	150	1212 प्रभावती पत्नी वदीवेल
				177/2एच	निजी	नम	150	1213 निथियान्नादाम पुत्र मुथु मुदलियार
				177/2आई2	निजी	नम	128	1519. पोन्नोथी पत्नी गोबिन्दासामी
				177/2जे2	निजी	नम	145	1907. एम डी दुस्था नाथ पुत्र एम आर धारनीपति
				177/2के2	निजी	नम	150	1908 एस वेनुगोपाल पुत्र एम सुन्नाबाबु
				178/2	निजी	नम	150	778 के शिवराज पुत्र वी कुप्पुसामी पिल्लै
				178/3	निजी	नम	200	4072 एस जगननाथन पुत्र सुन्नमणि
				178/4	निजी	नम	50	780 ई विश्वनाथन पुत्र ईलुमलाई पिल्लै

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				178/5	निजी	नम	200	935 गोपाल पुत्र वासुदेवन
				178/6	निजी	नम	55	935 गोपाल पुत्र वासुदेवन
				178/8	निजी	नम	150	1055 सी अरुमुगम पुत्र विद्वन्मनाथन
				178/9बी	निजी	नम	143	1520 पद्मनी पत्नी प्रमाकरन
				178/10	निजी	नम	200	1521 निर्मलादेवी पत्नी गोपाल
				178/11	निजी	नम	150	1022 सुन्दरी राधा कृष्णन पत्नी राधा कृष्णन
				178/12	निजी	नम	200	1640 मुधुकान्ना पुत्र अरुमुगम
				178/13	निजी	नम	100	1909 पी गोविन्दासामी पुत्र एम बालाकृष्णन
				178/14बी	निजी	नम	100	2154 आर अप्पाजी पुत्र रथाना मुदलियार
				178/15बी	निजी	नम	60	2228 एम जी रासन पुत्र मुधु
				178/16	निजी	नम	200	3468 बाबु पुत्र गुरुसामी
				179/1बी2	निजी	नम	2475	114 ईगामबाराम पुत्र मुनीयान 2. सेलवारज पुत्र इगामबाराम 3. वसन्ता पुत्री ईगामबाराम
				179/2	निजी	नम	150	661 आर एन अरीदास पुत्र नारायणसामी
				179/4बी	निजी	नम	87	692 जुनाचन्द्रन पुत्र नारायणन
				179/5	निजी	नम	200	698 आर कमला पत्नी वी मनी
				179/6	निजी	नम	150	699 पी रविचन्द्रन पुत्र वी प्रमेश्वरन
				179/7	निजी	नम	150	200. थारानी पत्नी केसावालु नायडु 2. मुनीयाम्मल 3. कशवालु नायडु 4. अरुमुगम 5. गोविन्दन 6. वेलायुधाम 7. मुनुसामी 8. पलायथाम 9. सेलवम 10. नटेशन 11. परसुरामन
				179/8	निजी	नम	150	701. बुवानेश्वरी नागराजन पत्नी नागराजन
				179/9बी	निजी	नम	84	696 एस विजयकुमार पुत्र सामीदेस
				179/10बी	निजी	नम	115	743 के वी रामनाईया
				179/12	निजी	नम	110	782 पी बालारामन पुत्र एस पेरुमल
				179/13	निजी	नम	100	783. एस कोथानदाम पुत्र सुब्बाराया मुदलियार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				179/14	निजी	नम	100	784 एस के थियागराजन पुत्र कल्याणरामन
				179/15	निजी	नम	55	785 सी वेलाप्पान पुत्र सुदालाईयान्दी
				179/16	निजी	नम	55	786 राजागोपालन पुत्र कृष्णा कुट्टी मेनोन
				179/17	निजी	नम	50	780 ई विश्वनाथन पुत्र ईलुमलाई पिल्लै
				179/18	निजी	नम	200	857 विजय चेल्लामुथु पत्नी चेल्लामुथु
				179/19	निजी	नम	55	858 एम रामु पुत्र पी मुनुसामी
				179/20	निजी	नम	110	859 जी एन साई रमेश पुत्र सत्या नारायणचेट्टी
				179/21	निजी	नम	200	936 कान्नागी सेलवाराजी
				179/22	निजी	नम	150	3956 राजामनी पुत्र श्रीनिवासन
				179/23	निजी	नम	50	1901 सी राजेन्द्रन पुत्र चिन्नाराजी मुदलियार
				179/24	निजी	नम	150	2021 पी शानमुगम पुत्र कैपीचाई
				179/25	निजी	नम	150	2031 सामीनाथन पुत्र पदमानाथन
				179/26	निजी	नम	50	2229 कान्चाना पत्नी चन्द्रशेखरन
				180/1बी2	निजी	नम	156	426 वरधान पुत्र पोन्नान
				180/2ए2	निजी	नम	2174	224 देवागीम्माल पत्नी नागाप्पान
				180/2बी	निजी	नम	150	860 एम पदमावती पत्नी सामसुन कादीचारलेस
				180/2सी	निजी	नम	200	628 प्रसुराम 2. सेलवम, पेरुमल के पुत्र
				180/2डी	निजी	नम	100	2229 कान्चाना पत्नी चन्द्रशेखरन
				181/1बी3	निजी	नम	1345	333 मुनुसामी उदायार राजा उदायार
				181/5	निजी	नम	50	664 आर मुथुलक्ष्मी पत्नी आर रथिनाम
				181/6	निजी	नम	50	665 नारायणसामी पुत्र चिन्नासामी नायडु
				181/11बी	निजी	नम	82	757 एस बानुमति पत्नी एस सुब्रामणि
				181/19बी	निजी	नम	143	1487 ए वी प्रमेशवरा ईयार पुत्र वैदयानाथा ईयार
				181/20	निजी	नम	150	1487 ए वी प्रमेशवरा ईयार पुत्र वैदयानाथा ईयार
				183/2	निजी	नम	200	258 पचाईयाम्माल पत्नी मुनुसामी चेट्टी
				183/3	निजी	नम	250	818 एन चन्द्रा पत्नी ई नयामुनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				183/4बी	निजी	नम	124	4036 एस सुर्या नारायणन पुत्र एस सुब्रामणी
				183/5बी	निजी	नम	100	903 एस उमापति पुत्र सुन्द्रम
				183/6बी	निजी	नम	110	904 एस उलागनाथन पुत्र सुन्द्रम
				183/7	निजी	नम	350	905 रामाथिलिम पत्नी एस अरुनागीरि
				183/9	निजी	नम	200	617 राजी 2. काथिरवेलु 3. ईथीराजी 4. मुरुगन 5. नेसीकान 6. दुराईसामी, पलायम के पुत्र 7. ईल्लाप्पान 8. सामीनाथन, मुनुसामी के पुत्र 9. काथिरवेल 10. गोबिन्दासामी, कुट्टी के पुत्र 11. पोसाम्माल 12. थामायान्थी 13. कमलाबाई 14. जया 15. मामुथा 16. दुराई 17. देवागीयम्माल
				184/1सी2	निजी	शुष्क	4085	617 राजी 2. काथिरवेलु 3. ईथीराजी 4. मुरुगन 5. नेसीकान 6. दुराईसामी, पलायम के पुत्र 7. ईल्लाप्पान 8. सामीनाथन, मुनुसामी के पुत्र 9. काथिरवेल 10. गोबिन्दासामी, कुट्टी के पुत्र 11. पोसाम्माल 12. थामायान्थी 13. कमलाबाई 14. जया 15. मामुथा 16. दुराई 17. देवागीयम्माल
				185/1बी2	निजी	नम	2900	378. रांगा नयागीम्माल पत्नी दास नायडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				185/1बी3	निजी	नम	100	378. रंगा नयागीम्माल पत्नी दास नायडु
				185/1बी4	निजी	नम	150	378. रंगा नयागीम्माल पत्नी दास नायडु
				185/1बी6	निजी	नम	1020	378. रंगा नयागीम्माल पत्नी दास नायडु
				185/1बी8	निजी	नम	50	378. रंगा नयागीम्माल पत्नी दास नायडु
				185/2बी	निजी	नम	110	642. रागोथामान पुत्र सेदु माधवाराज
				185/3	निजी	नम	200	643. आर चन्द्रशेखरन पुत्र रामाचन्द्रा ईयार
				185/4	निजी	नम	150	669. डी रंगानाथन पुत्र दुराईसामी मुदलियार
				185/5	निजी	नम	200	668 के एन मनोरमा पुत्र सी एन नारायणन
				185/6	निजी	नम	200	667 टी ईनायाथुल्ला पेक पुत्र ईयसमाईल पेक
				185/8	निजी	नम	150	674 पलानियम्माल पत्नी मोहनाम
				185/9	निजी	नम	200	675 आर अरुमुगम पुत्र एस राजागोपाल
				185/10बी	निजी	नम	50	3967 राजी मोहन पुत्र सदागोपालन
				185/11बी	निजी	नम	110	3955 जयलक्ष्मी पत्नी नन्दा गोपाल
				185/12	निजी	नम	150	705 वी लकचुमी पत्नी एस डी वैक्टेसन
				185/15	निजी	नम	60	708 जी गाजावल्ली पत्नी पी गुरुमुर्धि
				185/16	निजी	नम	200	709 जी लता गर्डियन ए टी अगस्टीन पत्नी अरुलदोस
				185/17बी	निजी	नम	30	757 एस बानुमति पत्नी एस सुब्रामणि
				185/22	निजी	नम	150	762 सुब्बा नारासु पुत्र संजीवी रामाईया
				185/26	निजी	नम	150	808 के जी प्रकाश बाबु पुत्र गोविन्दाजीलु
				185/27	निजी	नम	150	809 के धर्मलिंगम पुत्र कान्नाप्पा अचारी
				185/28	निजी	नम	200	810 ए सेलवाकुमार पुत्र एम एन्थोनी
				185/29	निजी	नम	200	811 एस नरसीमहलु पुत्र सामीक्कानु
				185/30	निजी	नम	150	847 वी मुरली पुत्र वैक्टेसन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				185/31	निजी	नम	150	848 पी राजाशेखरन पुत्र ओ एन पासुपति
				185/32	निजी	नम	150	849 एम मोहनराज पुत्र पी मुथु
				185/33	बी	निजी	नम	55 850 आर उदय कुमार पुत्र रामामुर्थि
				185/34	निजी	नम	200	3942 एन दुसयन्त पुत्र पी नटेशन
				185/35	बी	निजी	नम	168 852 एम मनीकावासगम पुत्र मरीया माईकल
				185/36	बी	निजी	नम	143 915 एम अमालराज पुत्र ए मरीया सुसाई
				185/39	ए	निजी	नम	30 1020 सकुन्तला पत्नी टी एस कालीया पेरुमल
				185/41	बी	निजी	नम	105 1022 सुन्दरी राधा कृष्णन पत्नी राधा कृष्णन
				185/42	बी	निजी	नम	173 1019 थियागराजन दामोदरन पुत्र सी डी राजन
				185/44	निजी	नम	200	1068 देवानाई पत्नी सी नन्दाकुमार
				185/47	बी	निजी	नम	83 1470. ललीताकुमारी पत्नी वी वी मोकीसवरन
				185/48	बी	निजी	नम	110 1470. ललीताकुमारी पत्नी वी वी मोकीसवरन
				185/49	निजी	नम	200	1471 रामालिगम 2. चन्द्रशेखरन, अरुमुगा गरामनी के पुत्र
				185/50	निजी	नम	200	1472 के विजयलक्ष्मी पुत्री राजागोपाल वरीयार
				185/52	बी	निजी	नम	45 1474 एस सरसवतीयाम्माल पत्नी सोन्द्रा राज
				185/53	बी	निजी	नम	47 1475 लातचुमी पत्नी टी एम मनीवान्नाम
				185/60	निजी	नम	150	1482 बी पांडुरंगन पुत्र जी बालाकृष्णन नायडु
				185/61	बी	निजी	नम	112 1751 वी समपत पुत्र वेधाचलम 2. थिरिपुरासुन्दरी पत्नी समपत
				185/65	बी	निजी	नम	130 1947 जे राधाकृष्णन पुत्र आर जे नायडु
				187/1	ए	निजी	नम	770 93. कुप्पान
				187/2	निजी	नम	100	664 आर मुथुलक्ष्मी पत्नी आर रथिनाम
				187/3	निजी	नम	100	665 नारायणसामी पुत्र विन्नासामी नायडु
				187/4	निजी	नम	150	676 सुब्रामणी पुत्र मादुरी अचारी

1094 GI/11-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				187/5	निजी	नम	100	3967 राजी मोहन पुत्र सदागोपालन
				187/6	निजी	नम	110	766 पी वैकटेशन पुत्र एम पार्थासार्थी
				187/11	निजी	नम	200	853 पी एच जयलक्ष्मी पत्नी कृष्णामुर्ध्नि
				187/17	निजी	नम	50	1487 ए वी प्रमेश्वर ईयार पुत्र वैदयानाथा ईयार
				188/1ए	निजी	नम	825	426 बरधान पुत्र पोन्नान
				256/1बी	निजी	नम	766	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				256/2बी	निजी	नम	408	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				256/4बी	निजी	नम	433	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				256/5बी	निजी	नम	406	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				256/6बी	निजी	नम	385	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				256/7बी	निजी	नम	685	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				257/2सी	निजी	नम	50	347 मुनुसामी पुत्र पोन्नान
				257/3सी	निजी	नम	100	347 मुनुसामी पुत्र पोन्नान
				258/1ए3	निजी	नम	300	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				258/1बी3	निजी	नम	100	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				258/1सी3	निजी	नम	100	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				258/1डी3	निजी	नम	100	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				258/2सी	निजी	नम	150	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				258/3सी	निजी	नम	100	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				259/1बी	निजी	नम	250	272. पार्वती पत्नी कुट्टी
				259/2ए2	निजी	नम	250	272. पार्वती पत्नी कुट्टी
				259/2बी1बी	निजी	नम	450	272. पार्वती पत्नी कुट्टी
				259/2बी2बी	निजी	नम	300	272. पार्वती पत्नी कुट्टी
				259/2बी3ए2	निजी	नम	100	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				259/2बी3बी2	निजी	नम	250	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				259/2बी3सी1बी	निजी	नम	200	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				259/2बी3सी2बी	निजी	नम	100	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				259/2बी3सी3बी	निजी	नम	50	303. कान्नाम्मा पत्नी मुनुसामी
				260/1ए2	निजी	नम	550	182 शेखर पुत्र मुनुसामी
				260/1बी2	निजी	नम	385	427 वलारमती पत्नी एम शेखर
				260/1सी1बी	निजी	नम	330	182 शेखर पुत्र मुनुसामी
				260/1सी2बी	निजी	नम	165	182 शेखर पुत्र मुनुसामी
				260/2ए2	निजी	नम	165	182 शेखर पुत्र मुनुसामी
				260/3ए2	निजी	नम	165	182 शेखर पुत्र मुनुसामी
				260/3बी1बी	निजी	नम	165	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				260/3बी2बी	निजी	नम	165	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान
				260/3बी3बी	निजी	नम	330	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्धान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				260/3बी4बी	निजी	नम	275	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्दान
				260/3बी5बी	निजी	नम	110	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्दान
				260/3बी6बी	निजी	नम	110	59. कान्नाम्मा पत्नी नान्दान
				266/1बी	निजी	नम	530	2704 एन रागु गडियन आर नरेन्द्रा प्रसाद 2. रागु गडियन रविन्द्रा परदीस
				293/1बी	निजी	नम	2717	302 पोन्नाम्माल
				293/2ए1बी	निजी	नम	777	304 पोन्नुसामी रेडडी पुत्र अरुमुगा रेडडी
				293/2ए1सी	निजी	नम	48	304 पोन्नुसामी रेडडी पुत्र अरुमुगा रेडडी
				293/2ए3	निजी	नम	150	3399 शक्ति पत्नी परी
				293/2ए4बी	निजी	नम	110	3358 अनाल्ची पत्नी भास्कर
				293/2ए5	निजी	नम	150	3401 पदमा श्री प्रकाश पत्नी श्री प्रकाश
				293/2ए6बी	निजी	नम	110	3401 अरुण पत्नी श्रीनिवासन
				293/2सी	निजी	नम	150	3349 नितिन माईनर पुत्र पांडियन गडियन पांडियन
				293/2डी	निजी	नम	350	3350 विजयलक्ष्मी माथिवाथानान पत्नी माथिवाथानान
				293/2ई	निजी	नम	150	3351 नवीन जोसफ अरोन पुत्र मालकोम अरोन
				293/2एफ	निजी	नम	150	3352 राजाराम पुत्र नटराजा नाईकर
				293/2जी2	निजी	नम	88	3353 विन्सट कैराकारी पुत्र जेवियर
				293/2के	निजी	नम	50	3329 श्रीनिवासन पुत्र नारायणसामी 2. काला श्रीनिवासन पत्नी श्रीनिवासन
				294/1बी	निजी	नम	50	3329 श्रीनिवासन पुत्र नारायणसामी 2. काला श्रीनिवासन पत्नी श्रीनिवासन
				294/1ए2बी	निजी	नम	165	3406 माधवी सांघालार पुत्री ललीता नायार
				299/1बी	निजी	नम	4070	302 पोन्नाम्माल पत्नी पोन्नुसामी
				299/2बी	निजी	नम	481	540 लोगनाथन 2. सबापति, पचाईयाप्पा चेट्टीयार के पुत्र
				300/1बी	निजी	नम	174	302 पोन्नाम्माल पत्नी पोन्नुसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				300/2बी	निजी	नम	1079	540 लोगनाथन 2. सबापति, पचाईयाप्पा चेट्टीयार के पुत्र
				301/2	निजी	नम	2953	121. गोबिन्दा नायडु पुत्र मुनीका नायडु

[फा. सं. भारराप्रा-मुआ/11013/2010/एलए/नोटिफ/पीआईयू-चेन्नई]
एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2011

S.O. 806(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 1285 (E), dated the 01st June, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land, specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four – laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 205 on the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tiruttani – Chennai Section) in District Tiruvallur, in the State of Tamil Nadu ;

And whereas the substance of the said notification has been published in 'The New Indian Express' and 'Dinamani', both dated the 30th June, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas nine objections have been received and the same has been considered and disallowed by the competent authority ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tirttani - Chennai Section) of National Highway number- 205 in District Tiruvallur in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey and sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the person Interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiruvallur	Tiruvallur	Thozhur	68/12A2	Private	Dry	2000	377. Damodaran S/o Arumugam (1) 3586. Sahul Harneed S/o Jailabudeen
				68/13A2	Private	Dry	1632	84. Krishnan S/o Govindasamy, 527. Krishnan (1) Santhalingam (2) Sons of Govindasamy, Nayagam W/o Govindasamy
				68/13B2	Private	Dry	1692	4067. Palani S/o Dilli Reddiyar
				69/2	Private	Dry	2653	3426. Dakshinamoorthy S/o Dilli Reddiyar (1) 4067. Palani S/o Dilli Reddiyar
				70/1B2	Private	Dry	1045	3426. Dakshinamoorthy S/o Dilli Reddiyar (1) 58. Gunasekar S/o Venugopal Mudaliyar (2)
				71/2B2	Private	Dry	1521	2806. T. Bavani W/o T. Palani
				74/2	Private	Dry	1971	58. Gunaekaran S/o Venugopal Mudaliyar
				75/2	Private	Wet	3008	191. Girija W/o Gunaekaran
				82/20	Private	Dry	800	598. Balakrishna Reddy (1) Uggaravel Reddy (2) Srinivasa Reddy (3) Sons of Govindaraji Reddy
				82/1A4	Private	Dry	165	2916. Maniboosanam W/o Gopal Reddy
				82/1A5B	Private	Dry	737	2643. Pallavi S/o Mani Alaf
				82/11B	Private	Dry	12	1686. Neelakantha Rao S/o Sundara Rao
				82/12	Private	Dry	400	1687. Krishnasamy S/o Mariyappan
				82/19	Private	Dry	100	528. Uggaravel Reddy (1) Srinivasa Reddy (2) Balakrishna Reddy (3) Sons of Govindaraja Reddy
				83/1A1A2	Private	Dry	288	387. Ramasamy Naidu S/o Perumal Naidu
				83/1A1B2	Private	Dry	185	2536. J. Jayasoba W/o R.I. Surendar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83/1A1C2	Private	Dry	107	2632. T. Devi W/o T. David
				83/1B2	Private	Dry	200	3861. Om Prakash S/o Sathiya Narayanan
				83/1B3	Private	Dry	150	172. Srinivasa Reddy S/o Govindaraja Reddy
				83/1B4	Private	Dry	150	172. Srinivasa Reddy S/o Govindaraja Reddy
				83/2A1C	Private	Dry	300	494. Ramasamy Naidu S/o Perumal Naidu (1) Rajammal W/o Kesavalu Naidu (2)
				83/2B2	Private	Dry	20	387. Ramasamy Naidu S/o Perumal Naidu
				83/2C2	Private	Dry	6	47. Elumalai S/o Kesaval Naidu
				83/4B	Private	Dry	30	2824. Bharatha W/o Umopathy
				84/2	Private	Dry	3520	1403. Srinivasa Reddy (1) Sons of Balakrishna Reddy (2) Govindaraji Reddy (3)
				84/1A10	Private	Dry	200	1419. Kannan S/o Ramasamy Iyyangar
				84/1A29	Private	Dry	200	2122. J. Selva Sundari W/o Jeevanandam
				84/1A30B	Private	Wet	110	2123. M. Gopal Pillai S/o Manicka Pillai
				84/1A33B	Private	Wet	55	2114. D. Arun Sayar S/o D. Istack
				84/1A34	Private	Wet	200	2115. P. Mynavathy W/o Ponnurangam
				88/3B	Private	Dry	3273	495. Loganatha Chetty (1) Sabapathy Chetty (2) Sons of Pachaiyappa Chetty
				90/2	Private	Wet	2909	2704. N. Ragu G/o R. Narendra Prasad (1) Naveendra Pradeesh (2)
				91/2	Private	Wet	275	2704. N. Ragu G/o R. Narendra Prasad (1) Naveendra Pradeesh (2)
				92/2	Private	Wet	1945	309. Mammudha W/o Palayam
				93/2	Private	Wet	1330	253. Pattammal W/o Jagannathan
				94/2	Private	Wet	1123	253. Pattammal W/o Jagannathan
				95/1B	Private	Wet	1400	309. Mammudha W/o Palayam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				95/2B	Private	Wet	496	626. Ganapathy S/o Thanthoni Mudaliyar (1) Ganapathy (2) Chokkalinga Mudaliyar (3) Sons of Subramani Mudaliyar, Murugesh Mudaliyar (4) Shanmuga Mudaliyar (5) Sons of Chinnaiya Mudaliyar
				95/3	Private	Wet	503	253. Pattammal W/o Jagannathan
				96/1B	Private	Wet	811	253. Pattammal W/o Jagannathan
				96/2B2	Private	Wet	834	253. Pattammal W/o Jagannathan
				96/3B2	Private	Dry	1683	253. Pattammal W/o Jagannathan
				97/2	Private	Wet	900	253. Pattammal W/o Jagannathan
				101/2B	Private	Wet	275	309. Mammudha W/o Palayam
				102/2B	Private	Wet	176	435. Thiruvallur. Veera Ragavasamy Koil
				175/1C2	Private	Wet	170	337. Munusamy S/o Ponnai
				176/1	Private	Wet	1850	92. Pappammal W/o Senchi
				176/2A1B	Private	Wet	310	59. Kannammal W/o Nandhan
				176/2A2B	Private	Wet	28	59. Kannammal W/o Nandhan
				177/1B2	Private	Wet	1870	59. Kannammal W/o Nandhan
				177/2A3	Private	Wet	2500	529. Errappan (1) Arputham (2) Balan (3) Saradha (4) Sons and Daughter of Ponnusamy
				177/2B	Private	Wet	150	776. S. Elangovan S/o E. Sampath
				177/2C	Private	Wet	150	777. K. Sivaraj S/o V. Kuppusamy Pillai
				177/2F	Private	Wet	150	1211. Vadivelu S/o Muthu Mudaliyar
				177/2G	Private	Wet	150	1212. Prabavathy W/o Vadivelu
				177/2H	Private	Wet	150	1213. Nithiyandam S/o Muthu Mudaliyar
				177/2I2	Private	Wet	128	1519. Poongothai W/o Govindasamy
				177/2J2	Private	Wet	145	1907. M.D. Duaratha Nath S/o M.R. Dharanipathy
				177/2K2	Private	Wet	150	1908. S. Venugopal S/o M. Sundarababu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				178/2	Private	Wet	150	778. K. Sivaraj S/o V. Kuppusamy Pillai
				178/3	Private	Wet	200	4072. S. Jagannathan S/o Subramani
				178/4	Private	Wet	50	780. E. Viswanathan S/o S. Elumalai Pillai
				178/5	Private	Wet	200	935. Gopal S/o Vasudevan
				178/6	Private	Wet	55	935. Gopal S/o Vasudevan
				178/8	Private	Wet	150	1055. C. Arumugam S/o Chidambaranathan
				178/9B	Private	Wet	143	1520. Padmini W/o Prabakaran
				178/10	Private	Wet	200	1521. Nirmaladevi W/o Gopal
				178/11	Private	Wet	150	1022. Sundari Radha Krishnan W/o Radha Krishnan
				178/12	Private	Wet	200	1640. Muthukannan S/o Arumugam
				178/13	Private	Wet	100	1909. P. Govindsamy S/o M. Balakrishnan
				178/14B	Private	Wet	100	2154. R. Appaji S/o Rathana Mudaliyar
				178/15B	Private	Wet	60	2228. M.G. Rasan S/o Muthu
				178/16	Private	Wet	200	3468. Babu S/o Gurusamy
				179/1B2	Private	Wet	2475	114. Egambaram S/o Muniyan (1) Selvaraj S/o Egambaram (2) Vasantha D/o Egambaram (3)
				179/2	Private	Wet	150	661. R.N. Aridass S/o Narayanasamy
				179/4B	Private	Wet	87	692. Junachandran S/o Narayanan
				179/5	Private	Wet	200	698. R. Kamala W/o V. Mani
				179/6	Private	Wet	150	699. P. Ravichandran S/o V. Parameshwaran
				179/7	Private	Wet	150	200. Tharani W/o Kesavalu Naidu (1) Muniammal (2) Kesavalu Naidu (3) Arumugam (4) Govindan (5) Velayudham (6) Munusamy (7) Palayathan (8) Selvam (9) Natesan (10) Parasuraman (11)
				179/8	Private	Wet	150	701. Buvaneshwari Nagarajan W/o Nagarajan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				179/9B	Private	Wet	84	696. S. Vijayakumar S/o Swamidoss
				179/10B	Private	Wet	115	743. K.V. Ramanaiya
				179/12	Private	Wet	110	782. P. Balaraman S/o S. Perumal
				179/13	Private	Wet	100	783. S. Kothandam S/o Subbaraya Mudaliyar
				179/14	Private	Wet	100	784. S.K. Thiyagarajan S/o Kalyanaraman
				179/15	Private	Wet	55	785. C. Velappan S/o Sudalaiyandi
				179/16	Private	Wet	55	786. Rajagopalan S/o Krihna Kutti Menon
				179/17	Private	Wet	50	780. E. Viswanathan S/o S. Elumalai Pillai
				179/18	Private	Wet	200	857. Vijaya Chellamuthu W/o Chellamuthu
				179/19	Private	Wet	55	858. M. Ramu S/o P. Murusamy
				179/20	Private	Wet	110	859. G.N. Sai Ramesh S/o Sathya Narayanachetty
				179/21	Private	Wet	200	936. Kannagi Selvaraji
				179/22	Private	Wet	150	3956. Rajamani S/o Srinivasan
				179/23	Private	Wet	50	1901; C. Rajendran S/o Chinnaraji Mudaliyar
				179/24	Private	Wet	150	2021. P. Shanmugam S/o Kaipichai
				179/25	Private	Wet	150	2031. Saminathan S/o Padmanathan
				179/26	Private	Wet	50	2229. Kanchana W/o Chandrasekaran
				180/1B2	Private	Wet	156	426. Varadhan S/o Ponnai
				180/2A2	Private	Wet	2174	224. Devagiammal W/o Nagappan
				180/2B	Private	Wet	150	860. M. Padnavathy W/o Samsun Kadicharles
				180/2C	Private	Wet	200	628. Parasuraman (1) Selvam (2) Sons of Perumal
				180/2D	Private	Wet	100	2229. Kanchana W/o Chandrasekaran
				181/1B3	Private	Wet	1345	333. Munusamy Udayar S/o Raji Udayar
				181/5	Private	Wet	50	664. R. Muthulakshmi W/o R. Rathinam
				181/6	Private	Wet	50	665. Narayanasamy S/o Chinnasamy Naidu
				181/11B	Private	Wet	82	757. S. Banumathy W/o S. Subramani

1444GI/11-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				181/19B	Private	Wet	143	1487. A.V. Parameshwara Iyyer S/o Vaidyanatha Iyyer
				181/20	Private	Wet	150	1487. A.V. Parameshwara Iyyer S/o Vaidyanatha Iyyer
				183/2	Private	Wet	200	256. Pachaiyammal W/o Munusamy Chetty
				183/3	Private	Wet	250	818. N. Chandra W/o E. Nadhamuni
				183/4B	Private	Wet	124	4036. S. Suriya Narayanan S/o S. Subramani
				183/5B	Private	Wet	100	903. S. Umaphathy S/o Sundaram
				183/6B	Private	Wet	110	904. S. Ulaganathan S/o Sundaram
				183/7	Private	Wet	350	905. Ramathilagam W/o S. Arunagiri
				183/9	Private	Wet	200	617. Raji (1) Kathirvelu (2) Ethiraji (3) Murugan (4) Nesikan (5) Duraisamy (6) Sons of Palayam, Ellappan (7) Saminathan (8) Sons of Munusamy, Kathirvelu (9) Govindasamy (10) Sons of Kutti, Poosammal (11) Thamayanathi (12) Kamalabai (13) Jaya (14) Mamutha (15) Durai (16) Devagiammal (17)
				184/1C2	Private	Dry	4085	617. Raji (1) Kathirvelu (2) Ethiraji (3) Murugan (4) Nesikan (5) Duraisamy (6) Sons of Palayam, Ellappan (7) Saminathan (8) Sons of Munusamy, Kathirvelu (9) Govindasamy (10) Sons of Kutti, Poosammal (11) Thamayanathi (12) Kamalabai (13) Jaya (14) Mamutha (15) Durai (16) Devagiammal (17)
				185/1B2	Private	Wet	2900	378. Ranga Nayagiammal W/o Dass Naidu
				185/1B3	Private	Wet	100	378. Ranga Nayagiammal W/o Dass Naidu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				185/1B4	Private	Wet	150	378. Ranga Nayagiammal W/o Dass Naidu
				185/1B6	Private	Wet	1020	378. Ranga Nayagiammal W/o Dass Naidu
				185/1B8	Private	Wet	50	378. Ranga Nayagiammal W/o Dass Naidu
				185/2B	Private	Wet	110	642. Ragothaman S/o Sedu Madavaraj
				185/3	Private	Wet	200	643. R. Chandrasekaran S/o Ramachandra Iyyer
				185/4	Private	Wet	150	669. D. Ranganathan S/o Duraisamy Mualiyar
				185/5	Private	Wet	200	668. K.N. Manorama S/o C.N. Narayanan
				185/6	Private	Wet	200	667. T. Enayathulla Peak S/o Iysmayil Peak
				185/8	Private	Wet	150	674. Palaniammal W/o Mohanam
				185/9	Private	Wet	200	675. R. Arumugam S/o S. Rajagopal
				185/10B	Private	Wet	50	3967. Raji Mohan S/o Sadagopan
				185/11B	Private	Wet	110	3955. Jayalakshmi W/o Nandha Gopal
				185/12	Private	Wet	150	705. V. Latchumi W/o S.D. Venkatesan
				185/15	Private	Wet	60	708. G. Gajavalli W/o P. Gurumoorthy
				185/16	Private	Wet	200	709. G. Latha G/o A.T. Agastin W/o Aruldoss
				185/17B	Private	Wet	30	757. S. Banumathy W/o S. Subramani
				185/22	Private	Wet	150	762. Subba Narasu S/o Sanjeevi Ramaiya
				185/26	Private	Wet	150	808. K.G. Prakash Babu S/o Govindarajulu
				185/27	Private	Wet	150	809. K. Dharmalingam S/o Kannappa Achari
				185/28	Private	Wet	200	810. A. Selvakumar S/o M. Anthony
				185/29	Private	Wet	200	811. S. Narasimhalu S/o Samikkannu
				185/30	Private	Wet	150	847. V. Murali S/o Venkatesan
				185/31	Private	Wet	150	848. P. Rajasekaran S/o O.N. Pasupathy
				185/32	Private	Wet	150	849. M. Mohanraj S/o P. Muthu
				185/33B	Private	Wet	55	850. R. Udaya Kumar S/o Ramamoorthy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				185/34	Private	Wet	200	3942. N. Dusyanthan S/o P. Natean
				185/35B	Private	Wet	166	852. M. Manickavasagam S/o Mariya Michal
				185/36B	Private	Wet	143	915. M. Amalraj S/o A. Mariya Susai
				185/39A	Private	Wet	30	1020. Sakunthala W/o T.S. Kaliya Perumal
				185/41B	Private	Wet	105	1022. Sundari Radhakrishnan W/o Radhakrishnan
				185/42B	Private	Wet	173	1019. Thiagarajan Damodaran S/o C.D. Rajan
				185/44	Private	Wet	200	1068. Deivanai W/o C. Nandhakumar
				185/47B	Private	Wet	83	1470. Lalithakumari W/o V.V. Mokeeswaran
				185/48B	Private	Wet	110	1470. Lalithakumari W/o V.V. Mokeeswaran
				185/49	Private	Wet	200	1471. Ramalingam (1) Chandrasekaran (2) Sons of Arumuga Gramani
				185/50	Private	Wet	200	1472. K. Vijayalakshmi D/o Rajagopal Variyaar
				185/52B	Private	Wet	45	1474. S. Saraswathyammal W/o Soundara Raj
				185/53B	Private	Wet	47	1475. Latchumi W/o T.M. Manivannan
				185/60	Private	Wet	150	1482. B. Pandurangan S/o G. Balakrishna Naidu
				185/61B	Private	Wet	112	1751. V. Sampath S/o Vedhachalam (1) Thiripurasundari W/o Sampath (2)
				185/65B	Private	Wet	130	1947. J. Radhakrishnan S/o R.J. Naidu
				187/1A	Private	Wet	770	93. Kuppan
				187/2	Private	Wet	100	664. R. Muthulakshmi W/o R. Rathinam
				187/3	Private	Wet	100	665. Narayanasamy S/o Chinnasamy Naidu
				187/4	Private	Wet	150	676. Subramani S/o Madurai Achari
				187/5	Private	Wet	100	3967. Raji Mohan S/o Sadagopan
				187/6	Private	Wet	110	766. P. Venkatesan S/o M. Parthasarathy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				187/11	Private	Wet	200	853. P.H. Jayalakshmi W/o Krishnamoorthy
				187/17	Private	Wet	50	1487. A.V. Parameshwara Iyyer S/o Vaidyanatha Iyyer
				188/1A	Private	Wet	825	426. Varadhan S/o Ponnann
				256/1B	Private	Wet	766	59. Kannamma W/o Nandhan
				256/2B	Private	Wet	408	59. Kannamma W/o Nandhan
				256/4B	Private	Wet	433	59. Kannamma W/o Nandhan
				256/5B	Private	Wet	406	59. Kannamma W/o Nandhan
				256/6B	Private	Wet	385	59. Kannamma W/o Nandhan
				256/7B	Private	Wet	685	59. Kannamma W/o Nandhan
				257/2C	Private	Wet	50	347. Munusamy S/o Ponnann
				257/3C	Private	Wet	100	347. Munusamy S/o Ponnann
				258/1A3	Private	Wet	300	303. Kannamma W/o Munusamy
				258/1B3	Private	Wet	100	303. Kannamma W/o Munusamy
				258/1C3	Private	Wet	100	303. Kannamma W/o Munusamy
				258/1D3	Private	Wet	100	303. Kannamma W/o Munusamy
				258/2C	Private	Wet	150	303. Kannamma W/o Munusamy
				258/3C	Private	Wet	100	303. Kannamma W/o Munusamy
				259/1B	Private	Wet	250	272. Parvathy W/o Kutti
				259/2A2	Private	Wet	250	272. Parvathy W/o Kutti
				259/2B1B	Private	Wet	450	272. Parvathy W/o Kutti
				259/2B2B	Private	Wet	300	272. Parvathy W/o Kutti
				259/2B3A2	Private	Wet	100	303. Kannamma W/o Munusamy
				259/2B3B2	Private	Wet	250	303. Kannamma W/o Munusamy
				259/2B3C1B	Private	Wet	200	303. Kannamma W/o Munusamy
				259/2B3C2B	Private	Wet	100	303. Kannamma W/o Munusamy
				259/2B3C3B	Private	Wet	50	303. Kannamma W/o Munusamy
				260/1A2	Private	Wet	550	182. Sekar S/o Munusamy
				260/1B2	Private	Wet	385	427. Valarmathy W/o M. Sekar

1444 GI/11-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				260/1C1B	Private	Wet	330	182. Sekar S/o Munusamy
				260/1C2B	Private	Wet	165	182. Sekar S/o Munusamy
				260/2A2	Private	Wet	165	182. Sekar S/o Munusamy
				260/3A2	Private	Wet	165	182. Sekar S/o Munusamy
				260/3B1B	Private	Wet	165	59. Kannamma W/o Nandhan
				260/3B2B	Private	Wet	165	59. Kannamma W/o Nandhan
				260/3B3B	Private	Wet	330	59. Kannamma W/o Nandhan
				260/3B4B	Private	Wet	275	59. Kannamma W/o Nandhan
				260/3B5B	Private	Wet	110	59. Kannamma W/o Nandhan
				260/3B6B	Private	Wet	110	59. Kannamma W/o Nandhan
				266/1B	Private	Wet	530	2704. N. Ragu G/o R. Narendra Prasad (1) Ragu G/o Raveendra Pradeesh (2)
				293/1B	Private	Wet	2717	302. Ponnammal W/o Ponnusamy
				293/2A1B	Private	Wet	777	304. Ponnusamy Reddy S/o Arumuga Reddy
				293/2A1C	Private	Wet	48	304. Ponnusamy Reddy S/o Arumuga Reddy
				293/2A3	Private	Wet	150	3399. Santhi W/o Pari
				293/2A4B	Private	Wet	110	3358. Anandhi W/o Baskar
				293/2A5	Private	Wet	150	3401. Padma Sri Prakash W/o Sri Prakash
				293/2A6B	Private	Wet	110	3401. Aruna W/o Srinivasan
				293/2C	Private	Wet	150	3349. Nithin (Minor) S/o Pandian G/o Pandian
				293/2D	Private	Wet	350	3350. Vijayalakshmi Mathivathanan W/o Mathivathanan
				293/2E	Private	Wet	150	3351. Naveen Joseph Aron S/o Malcom Aron
				293/2F	Private	Wet	150	3352. Rajaram S/o Nataraja Naicker
				293/2G2	Private	Wet	88	3353. Vincent Kirakari S/o Xavier
				293/2K	Private	Wet	50	3329. Srinivasan S/o Narayanasamy (1) Kala Srinivasan W/o Srinivasan (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				294/1B	Private	Wet	50	3329. Srinivasan S/o Narayanasamy (1) Kala Srinivasan W/o Srinivasan (2)
				294/1A2B	Private	Wet	165	3406. Madhavi Sandhalar D/o Lalitha Nayar
				299/1B	Private	Wet	4070	302. Ponnammal W/o Ponnusamy
				299/2B	Private	Wet	481	540. Loganathan (1) Sabapathy (2) Sons of Pachaiyappa Chettiar
				300/1B	Private	Wet	174	302. Ponnammal W/o Ponnusamy
				300/2B	Private	Wet	1079	540. D. Loganathan (1) D.P. Sabapathy (2) Sons of Pachaiyappa Chettiar
				301/2	Private	Wet	2953	121. Govinda Naidu S/o Munika Naidu

[F. No. NHAI/HQ/11013/2010-L.A./Notif./PIU-Chennai]

S. NARENDRA, Director